



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-06.12.2022

थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा चोरी के 01 अदद सबमर्सिबल पम्प के साथ

02 नफर वांछित चोर 1-चन्दन राजभर 2-प्यासी गिरी व खरीदार 3-सुख्खु गौंड गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-494/2022 धारा 380/411 भा0द0वि से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1.चन्दन राजभर पुत्र बचाऊ राजभर नि0 ग्राम सथवा थाना सारनाथ वाराणसी 2.प्यासी गिरी पुत्र नन्दलाल गिरी निवासी ग्राम कुरेजी थाना गढवार जिला-बलिया हाल पता देशी ठेका के पीछे फरिदपुर थाना सारनाथ वाराणसी 3.सुख्खु गौंड पुत्र स्व0 चतुरी गौंड निवासी पतेरवा थाना सारनाथ वाराणसी को सिंहपुर अन्डरपास से दिनांक-05.12.2022 को चोरी गये 01 अदद सबमर्सिबल पम्प के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-दिनांक 5-12-2022 को वादी श्री राधेश्याम विश्वकर्मा स्व0 पुत्र अलगु विश्वकर्मा निवासी-म0न0 सा 22/168.24 D पुरनापुल वाराणसी ने अशोका इन्केलेव खजुही सारनाथ वाराणसी स्थिति उनके मकान से समर सेबल पम्प व स्टाटर चोरी हो जाने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना सारनाथ पर मु0अ0सं0-0494/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 दिगम्बर उपाध्याय द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.चन्दन राजभर पुत्र बचाऊ राजभर नि0 ग्राम सथवा थाना सारनाथ वाराणसी, उम्र 29 वर्ष। (चोर)
- 2.प्यासी गिरी पुत्र नन्दलाल गिरी निवासी ग्राम कुरेजी थाना गढवार जिला-बलिया हाल पता देशी ठेका के पीछे फरिदपुर थाना सारनाथ वाराणसी, उम्र करीब 20 वर्ष। (चोर)
- 3.सुख्खु गौंड पुत्र स्व0 चतुरी गौंड निवासी पतेरवा थाना सारनाथ वाराणसी, उम्र करीब 42 वर्ष। (खरीदार)

पूछताछ का विवरण-अभियुक्त चन्दन राजभर व प्यासी ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो साथ में ही अक्सर रहते हैं और मोटा काम करते हैं। इधर कुछ दिनों से कहीं भी काम नहीं मिल रहा था तब हमदोनो ने दिनांक 04.12.2022 को खजुही सारनाथ वाराणसी स्थित एक मकान जिसमें कार्य चल रहा था वहाँ से हमने सबमर्सिबल पम्प को उखाड़कर चोरी कर लिया था और उसे सुख्खु गौंड को मे बेच दिये 0रु 2500 थे और वो पैसे हम लोग आपस में बाटकर खाने पिये में खर्च कर दिये हैं।

अभियुक्त सुख्खु गौंड ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 04.12.2022 को रात्रि में मेरे पास ये लोग समरसेबल लेकर आये और बताये कि हम लोगो ने इसे चुराया है आप कम ही पैसे में ले लीजिए, तब मैंने लालच में आकर इनलोगो से 2500 रु0 में समरसेबल खरीद लिया था।

बरामदगी का विवरण-एक अदद सबमर्सिबल पम्प बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्रभारी नि० धर्मपाल सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.उ०नि० दिगम्बर उपाध्याय थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.उ०नि० सोमन कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4.का० संतोष कुमार यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
- 5.का० रामानन्द यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

